

निम्नलिखित को मिलाएं



गोभी




फलियां



चुकंदर



बैंगन



करेला




प्याज




आलू



टमाटर



मूली



సేజన



భిన్డి



గాజర



చిచిణ్డా